



ट्रेंडिंग: #नरेंद्र मोदी #संसद सत्र #सिंहस्थ कुंभ #अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम #आईपीएल 9 #विधानसभा चुनाव 2016

टेक ज्ञान ▶ टेक न्यूज़ • लेटेस्ट लॉन्च • और पढ़ें



## एयरटेल की नयी इमरजेंसी अलर्ट सर्विस

Publish Date: Mon, 03 Dec 2012 02:55 PM (IST) | Updated Date: Mon, 03 Dec 2012 02:55 PM (IST)

Share

Like

7

0

Tweet

0



नई दिल्ली। भारती एयरटेल ने प्राकृतिक आपदा की परिस्थिति में फंसे लोगों की मदद के लिए नयी इमरजेंसी अलर्ट सर्विस की शुरुआत की है। इस सेवा के अनुसार एयरटेल यूजर्स एक फोन कॉल या एमएमएस के जरिये अपने 10 मित्रों को एक साथ अपन भौगोलिक स्थिति के साथ अलर्ट भेज सकते हैं।

किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फंसे होने पर अपने परिजनों को एयरटेल सब्सक्राइबर सेफ या हेल्प लिखकर संदेश भेज खुद के कुशल होने का संदेश दे सकते हैं।

इस सर्विस को अपने मोबाइल पर एक्टिवेट कराना भी काफी आसान है। जो भी यूजर्स इस सेवा को एक्टिवेट कराना चाहते हैं उसके लिए बस 55100 डायल करें और मेनु ऑप्शन को फॉलो करें। इसके लिए आपको 30 दिन का 30 रुपया देना होगा। यदि आप अपने ग्रुप में दस से ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहते हैं तब मेसेज में जाकर स्टार्ट टाइप करिए और साथ में मोबाइल नंबर 1, मोबाइल नंबर 2.. करके क्रमशः जोड़ते जाइए।

यह सेवा आपको आपकी जरूरत के मुताबिक दो शब्दों के लिए मिलेगी- हेल्प या सेफ। आप अपनी परिस्थितियों के मुताबिक जैसे ही 55100 पर संदेश या फोन करेंगे आपके द्वारा जोड़े गए परिजनों को मिल जाएंगे। भेजें या डायल करेंगे

यह सुनने में तो अच्छा लगता ही है पर जैसे ही ऐसी परिस्थिति आती है दिमाग में ये छोटा नंबर भी नहीं रह पाता। तो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है तभी आप मुश्किलों का सामना कर पाएंगे।

मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं [m.jagran.com](http://m.jagran.com) पर